

फर्जी आईएस अधिकारी गिरफ्तार घटना मे प्रयुक्त मोबाईल बरामद

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में चलाये गये #आपरेशन420 के अपराधियों की धरपकड़ एवम गिरफ्तारी के क्रम मे चलाये गये अभियान श्रीमान श्री ज्ञानेन्द्र सिंह अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन मे एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक खोडा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.10.2020 समय 15.30 बजे घटनास्थल म0न0 620 गली न0 10 आजाद विहार खोडा कालोनी से एक फर्जी आईएस अधिकारी अभिषेक कुमार चौबे पुत्र सचिदानन्द चौबे निवासी मकान न0 620 गली न 10 आजाद विहार कालोनी खोडा थाना खोडा गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोबाईल MI कम्पनी का बरामद होना तथा अभियुक्त द्वारा रिटायर्ड आईएस अधिकारी श्री आर.एन चौबे की फोटो सहित फर्जी आईडी व्हाटसअप व टू कालर पर बनाकर श्री आर.एन चौबे आईएस अधिकारी के नाम का इस्तेमाल करना एवम अपना व अपने परिचितो का काम कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगणो एवम अन्य अधिकारीगणो को फोन करना।

गिर0 अभियुक्त का नाम पता

अभिषेक कुमार चौबे पुत्र सचिदानन्द चौबे निवासी मकान न0 620 गली न 10 आजाद विहार कालोनी खोडा थाना खोडा गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 624/20 धारा 420,416 भादवि व 66 IT ACT खोडा गा0बाद

बरामदगी – अभियुक्त के कब्जे से मोबाईल फोन एवम आधार कार्ड व आई कार्ड बरामद

**एनसीआर क्षेत्र में मोबाईल लूटने वाले गिरोह के 04 शातिर लूटेरे गिरफ्तार ,****कब्जे से लूट के 07 अदद मोबाईल फोन बरामद**

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व मे एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक खोडा के कुशल नेतृत्व में थाना खोडा पुलिस द्वारा शातिर लूटेरो के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा **दिनांक 26.10.2020 को समय 03.50 बजे रात्रि में** चैकिंग के दौरान

जर्दा फैक्ट्री प्रगति विहार खोडा कालोनी से 04 लूटेरो को लूटे गये 07 मोबाईलो सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की ।

अपराध करने का तरीका:- अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म के लूटेरे है जो एनसीआर क्षेत्र में राह चलते लोगो के मोबाईल फोन छीन कर भाग जाते है तथा लूटे गये मोबाईलो को बेचकर अपने शौक पूरे करते है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. डेविड पुत्र ओमवीर नि0 नियर फारूखी मस्जिद मात्रिका विहार खोडा जनपद गाजियाबाद
2. बाँबी पुत्र जयपाल नि0 ए 430 घडौली मयूर विहार फेस 3 दिल्ली
3. शिवकुमार पुत्र अरविन्द सिंह नि0 दूसरी जर्दा शिवपार्क खोडा कालोनी गाजियाबाद
4. सचिन पुत्र राजेन्द्र (गार्ड) नि0 ग्राम गिझौड सेक्टर 53 नोएडा

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

1. एक मोबाईल रेडमी/एमआई गोल्डन कलर का
2. दूसरा मोबाईल मोटोरोला कम्पनी काले नीले रंग का जिसका आईईएमआई नं0 355548091133750 तथा 355548091133768
3. वीवो गोल्डन कलर आईईएमआई नम्बर 863914034973832 तथा 863914034973824
4. एक मोबाईल MI कलर गोल्डन IMEI NO. 868210032700003 तथा 868210032700011
5. मोबाईल INFOCUS कम्पनी रंग गोल्डन मिला जिसका IMEI NO. नहीं मिला
6. सेमसंग रंग गोल्डन
7. सेमसंग ग्रे रंग का जिसका IMEI NO. 355644074453586 तथा 355645074453583

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त डेविड का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	625/2020	392,411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
2	627/2020	414,411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद

अभियुक्त बाबी का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	625/2020	392,411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
2	627/2020	414,411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद

अभियुक्त शिवकुमार का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	625/2020	392,411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
2	627/2020	414,411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद

अभियुक्त सचिन का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	625/2020	392,411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
2	627/2020	414,411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 230 गोलियाँ अलप्राजोलम बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों में अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री अभिषेक वर्मा के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 26-10-2020 को फ्लाई ओवर के नीचे विजय नगर कट पर चैकिंग के दौरान जनपद में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त एक अभियुक्त आदिल पुत्र नसीम अली को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से 230 नशीली गोलियाँ अलप्राजोलम नाजायज के बरामद कर गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह गाजियाबाद में भिन्न भिन्न स्थानों पर अवैध लाभ तथा अपने निजी स्वार्थ के लिये अवैध नशीली गोलियाँ अलप्राजोलम को नशे के आदी लोगों को बेचता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

आदिल पुत्र नसीम अली निवासी मुख्तार होटल के पास कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

- 1- मु०अ०सं०- 717/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गा०बाद

बरामदगी का विवरण:-



1- 230 गोलियाँ अलप्राजोलम

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त को गिरफ्तार कब्जे से 225 गोलियाँ एलप्राजोलम अवैध व एक चोरी की मोटर साईकिल बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों में लिप्त/ अपराधी एवं शांतिर आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री अभिषेक वर्मा के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 26/10/2020 को दौराने चैकिंग पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तगण 1. संजयपाल 2. अक्षय राणा, 3. राहुल बाल्मिकी के कब्जे से एक चोरी की मोटर साईकिल होण्डा साईन तथा 225 गोलियाँ एलप्राजोलम अभियुक्त संजयपाल के गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि वह एनसीआर क्षेत्र में मोटर साईकिल चोरी करता है जिसके साथ अभियुक्त संजयपाल नशाली एलप्राजोलम गोलियों को नशे के आदी लोगो को अपने परिवार का भरण पोषण करने एवं अवैध लाभ तथा अपने निजी स्वार्थ के लिये नशीला पाउडर बेचता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1- संजयपाल पुत्र राजेन्द्र पाल निवासी मकान किरायेदार कल्लू मौहल्ला माधवपुरा थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीव वर्ष 23
- 2- अक्षय राणा पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम गंगसोना थाना फलावदा मेरठ उम्र करीव वर्ष 25
- 3- राहुल वाल्मिकी पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मेहतना थाना इंचौली जिला मेरठ हालपता मकान किरायेदार विटटू पंजाव लाइन थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीव वर्ष 27

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजयपाल -

- 1- मु0अ0सं0 715/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद
- 2- मु0अ0सं0 716/2020 धारा 411/414 भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद
- 3- मु0अ0सं0 556/2020 धारा 379 भादवि थाना इन्दिरापुरम गा0बाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अक्षय राणा-

- 1- मु0अ0सं0 716/2020 धारा 411/414 भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद
- 2- मु0अ0सं0 556/2020 धारा 379 भादवि थाना इन्दिरापुरम गा0बाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल बाल्मिकी-

- 1- मु0अ0सं0 716/2020 धारा 411/414 भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद
- 2- मु0अ0सं0 556/2020 धारा 379 भादवि थाना इन्दिरापुरम गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

1. 225 गोलियाँ एल्प्राजोलम नशीला अभियुक्त संजयपाल से बरामद
2. 01 मोटर साईकिल होण्डा साइन न0- DL7SBT1800 इंजन न0- JC36E77775453 सम्बन्धित मु0अ0सं0- 556/2020 धारा 379 भादवि थाना इन्दिरापुरम गा0बाद अभियुक्त संजयपाल, अक्षय राणा, राहुल बाल्मिकी से बरामद



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से कुल 104ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों में अपराधियों चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 25.10.2020 को समय करीब 23.00 बजे विजय पार्क से तीन अभियुक्त 01- संजू पुत्र रामवीर सिंह नि0 ग्राम धनारी थाना धनारी जिला सम्भल 02- अलाउद्दीन पुत्र रहीस नि0 ई-82 शहीदनगर थाना सा0बाद गा0बाद 03- मोनू पुत्र असगर मरहूम नि0 डी-328

शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को 104ग्राम नाजायज नशीला पाउडर अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि वह गाजियाबाद दिल्ली बोर्डर के आस-पास नशे के आदी लोगों को नशीला पाउडर बेचकर अपने व अपने परिवार का भरणपोषण करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. संजू पुत्र रामवीर सिंह नि0 ग्राम धनारी थाना धनारी जिला सम्भल से 37ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर।
2. अलाउद्दीन पुत्र रहीस नि0 ई-82 शहीदनगर थाना सा0बाद गा0बाद से 32ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर।

3. मोनू पुत्र असगर मरहूम नि0 डी-328 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद 35ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 1272/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम संजू।
- 2- मु0अ0सं0 1273/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम अलाउद्दीन।
- 3- मु0अ0सं0 1274/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम मोनू।

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल 104ग्राम नाजायज नशीला पाउडर अल्प्राजोलम।



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा चार जुआरियों को गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 25/10/20 को चैकिंग के दौरान चार शातिर अभियुक्तगण 1. दीपक 2. फिरोज 3. जयभगवान 4. अमीरुद्दीन को **जुआ खेलते हुए** पानी की टंकी के पास मैदान सुदामापुरी थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- दीपक पुत्र जगदीश निवासी म0नं0 121 गली टंकी के पास सुदामापुरी विजयनगर गा0बाद
- 2- फिरोज पुत्र मौ0 याकूब निवासी A /263 अम्बेडकर नगर केम्प त्रिलोकपुरी दिल्ली
- 3- जयभगवान पुत्र जयपाल सिंह निवासी म0नं0 675 लाल क्वाटर सुदामापुरी विजयनगर गा0बाद
- 4- अमीरुद्दीन पुत्र नजीर अहमद निवासी म0नं0 107 लाल क्वाटर सुदामापुरी विजयनगर गा0बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

- 1- मु.अ.स. 1389/20 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

- 1- 1 ताश की गड्डी व 28060/- रुपये



थाना मुरादनगर क्षेत्र के ग्राम मनौटा के पास दिनांक 14/15.10.2020 की रात्रि को रेलवे ट्रैक पर हत्या कर फैंके गये शव को आत्महत्या का रूप देने वाली घटना का खुलासा, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही:- दिनांक 14/15.10.2020 की रात्रि समय करीब 02.45 मिनट पर स्टेशन मास्टर मुरादनगर ने एक मीमो के माध्यम से सूचना दी कि मोदीनगर - मुरादनगर के मध्य मनौटा के पास एक मृत व्यक्ति पडा है, जिसके आधार पर पुलिस मौके पर पहुँची। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा शव की शिनाख्त के प्रयास किये गये। अथक प्रयास के बाद शव की शिनाख्त कृष्णा नगर मोदीनगर निवासी लोकेश पुत्र स्व० बनवारी के रूप में हुई। इसके सम्बंध में मृतक के घर वालो को सूचित किया गया। मृतक के भाई प्रेम कुमार पांचाल की लिखित तहरीर पर थाना मुरादनगर पर मु०अ०सं० 760/20 धारा 302,201,34 भादवि पंजीकृत किया गया। गहनता से की गई विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आया कि सोनू पुत्र मुकेश, विश्वास पुत्र रमाकान्त व संजू उर्फ संजय उर्फ बाबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोकेश को रेलवे ट्रैक पर ले जाकर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी तथा शव को आत्महत्या दिखाने के उद्देश्य से रेलवे ट्रैक पर रख दिया था। पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.10.20 को साक्ष्यों के आधार पर अथक परिश्रम कर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार शुदा तीनो व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो विश्वास पुत्र रमाकान्त ने बताया कि मेरी भाभी के हमारे पडोस में रहने वाले लोकेश पुत्र स्व० बनवारी से पिछले 3-4 साल से प्रेम संबंध थे। दिनांक 14.10.2020 को शाम के समय लोकेश हमारे घर आया था तथा लोकेश को हमारे घर वालो ने संदिग्ध अवस्था में देख लिया था तो लोकेश वहां से भागकर फैक्ट्री आ गया था तो हमने इसकी हत्या करने की योजना बनाई। योजना के तहत मैंने अपने साले सोनू व उसके दोस्त संजू उर्फ संजय उर्फ बाबा व एक अन्य साथी के साथ मिलकर अबूपुर स्थित फैक्ट्री जिसमें लोकेश काम करता था। वहाँ से उसे बुलाकर मनौटा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर ले जाकर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी तथा उसके शव को आत्महत्या दिखाने के उद्देश्य से रेलवे ट्रैक पर रख दिया था।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण -

1. संजू उर्फ संजय उर्फ बाबा पुत्र देवेन्द्र सिंह नि० मनौटा थाना मुरादनगर गाजियाबाद
2. विश्वास पुत्र रमाकान्त नि० कृष्णानगर गली न० 2 थाना मोदीनगर गाजियाबाद
3. सोनू पुत्र मुकेश शर्मा नि० अबुपुर थाना निवाडी गाजियाबाद



थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्तगण को 50 कट्टे अवैध पटाखो सहित तथा 1 अभियुक्त को 50 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा 50 कट्टे अवैध पटाखे सहित 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा 46 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा प्रदेश मार्का ले जाते 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

दिनांक 25.10.2020 समय 22.10 बजे थाना हाजा पुलिस को चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगणों 01. सरिफुद्दीन पुत्र इजाज अली निवासी असालतपुर फरुखनगर थाना टीला मोड गा0बाद, 02. मुजम्मिल पुत्र जमील अहमद निवासी असालतपुर फरुखनगर थाना टीला मोड गा0बाद, 03. प्रदीप पुत्र नन्हे निवासी फरुखनगर थाना टीला मोड गा0बाद को अनमोल इन्डेन गैस एजेंसी के पीछे 50 कट्टे अवैध पटाखो सहित गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की । जिसके सम्बंध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 437/20 धारा 9 बी(1)(बी) विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 25.10.2020 को ही समय 21.20 बजे एक अभियुक्त फिरोज खान पुत्र मुन्ना खान निवासी मकान न0 – 91LIG फ्लेट तुलसीनिकेतन थाना टीलामोड गाजियाबाद को लाल गेट के पास भौपुरा से 50 पच्चे अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 436/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

01. सरिफुद्दीन पुत्र इजाज अली निवासी असालतपुर फरुखनगर थाना टीला मोड गा0बाद
02. मुजम्मिल पुत्र जमील अहमद निवासी असालतपुर फरुखनगर थाना टीला मोड गा0बाद
03. प्रदीप पुत्र नन्हे निवासी फरुखनगर थाना टीला मोड गा0बाद
- 04 फिरोज खान पुत्र मुन्ना खान निवासी मकान न0 – 91LIG फ्लेट तुलसीनिकेतन थाना टीलामोड गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

मु0 अ0 स0 437/2020 धारा 9 ख-1(ख) विस्फोटक अधिनियम बनाम सरिफुद्दीन आदि 03 नफर मु0अ0सं0 436/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम बनाम फिरोज खान

चैकिंग अभियान के दौरान 02 नफर अभि० को अवैध शस्त्र व चोरी की 01 मो०सा० स्पलेन्डर व 700 रु० सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा वाहन चोर/लुटेरों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि० 25/10/20 को अभि० 1. मौ० मोहसीन पुत्र मौ० उमर दराज नि० गली नं 02 मोहल्ला जीतपुर कस्बा व थाना मुरादनगर गा०बाद 2. आमिर उर्फ नुन्ना पुत्र स्व० मेहरुद्दीन नि० ग्राम निवाडी थाना निवाडी जिला गा०बाद हाल पता इस्लाम का किराये का मकान जीतपुर रावली रोड कस्बा व थाना मुरादनगर को टाटा शौरुम के पास मेरठ रोड हल्का चौकी लोहिया नगर से 01-01 अदद चाकू नाजायज व चोरी की 01 मो०सा० 01 मो०सा० स्पलेन्डर न० UP 13 AN-5903 चोरी की व 700 रु० सम्ब० मु०अ०स० 1668/20 धारा 392 भादवि थाना सिहानीगेट गा०बाद के मोबाईल को बेचने से शेष बचे रु० बरामद हुए सहित समय 23.30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 25/10/20 को चैकिंग अभियान के दौरान टाटा शौरुम मेरठ रोड हल्का चौकी लोहिया नगर थाना सिहानीगेट पुलिस कर्म०गण दो लडके उधल नगर की तरफ से टाटा शौरुम मेरठ रोड की तरफ एक मो०सा० स्पलेन्डर से आते दिखायी दिये जिन्हे रोकने का इशारा किया तो पीछे मुडकर भागने का प्रयास करने लगे तेजी से पुलिसकर्मियो द्वारा अभि०गण को मय मो०सा० के पकड लिया पकडे जाने पर अपना नाम 1.मौ० मोहसीन 2. आमिर उर्फ नुन्ना उपरोक्त बताया तलाशी ली गयी तो दोनो से 01-01 अदद चाकू नाजायज व चोरी की 01 मो०सा० स्पलेन्डर न० UP 13 AN-5903 चोरी की व 700 रु० सम्ब० मु०अ०स० 1668/20 धारा 392 भादवि थाना सिहानीगेट गा०बाद के मोबाईल को बेचने से शेष बचे रु० बरामद हुए तथा अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह मो०सा० बु०शहर के मैन बाजार से चोरी की है । व थाना सिहानी गेट के मु०अ०स० 1668/20 धारा 392 भादवि मे साईकिल सवार से छीने गये मोबाईल रेडमी-08 रंग लाल को अभि०गण द्वारा राहगीर को 2000 मे बेचा गया उनमे से बचे 700 रु० बरामद हुए

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मौ० मोहसीन पुत्र मौ० उमर दराज नि० गली नं 02 मोहल्ला जीतपुर कस्बा व थाना मुरादनगर गा०बाद
2. आमिर उर्फ नुन्ना पुत्र स्व० मेहरुद्दीन नि० ग्राम निवाडी थाना निवाडी जिला गा०बाद हाल पता इस्लाम का किराये का मकान जीतपुर रावली रोड कस्बा व थाना मुरादनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1 मु०अ०स० 1700/20 धारा 4/25 AACT बनाम मोहसीन
2. मु०अ०स० 1701/20 धारा 4/25 AACT बनाम आमिर
3. . मु०अ०स० 1702/20 धारा 414 भादवि बनाम मोहसीन व आमिर

बरामदगी

1- 02 अदद चाकू नाजायज

2.01 मो0सा0 स्पेलन्डर प्लस न0 UP 13 AN-5903 बु0शहर के मैन बाजार से चोरी की सम्ब0

3.थाना सिहानी गेट के मु0अ0स0 1668/20 धारा 392 भादवि मे साईकिल सवार से छीने गये मोबाईल रेडमी-08 रंग लाल को अभि0गण द्वारा राहगीर को 2000 मे बेचा गया उनमे से बचे 700 रु0



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 07 अभियुक्तों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया मोके से 20010 रु व 52 ताश के पत्ते बरामद

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों एवं अवैध शस्त्र/ शराब/ जुआ/सट्टा रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 25.10.20 को सेक्टर-B ट्रोनिकासिटी से समय 22.20 वजे 07अभियुक्तों को तास के पत्तों से पैसे लगाकर जुआ खेलते समय फड से मय 20010 रु व 52 ताश के पत्तों के गिरफ्तार किया। जिसका थाना हाजा पर अ0सं0 643/20 धारा 13 जी जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि आज दशहरा होने के कारण तास के पत्तों से आपस में पैसे लगाकर जुआ खेल रहे हैं

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.नन्दराम पुत्र कमल सिंह नि0 सामन्ती नंगला थाना छर्ना जनपद अलीगढ़
- 2.अशोक कुमार पुत्र चन्द नि0 घोडा गेट पावी थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
- 3.मनोज पुत्र मंगल सिंह नि0 पावी थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
- 4.राजेश पुत्र सियाराम नि0 सकूराबाद थाना हरियावा जनपद हरदोई
- 5.मनोज कुमार पुत्र कन्धी नि0 ग्राम डेडा कला थाना पिसावा जिला अलीगढ़
- 6.नामसिंह पुत्र मोहर सिंह नि0 सी ब्लाक माता वाली गली जौहरी पुर दिल्ली
- 7.राजकुमार पुत्र कान्ताप्रशाद नि0 ग्राम अमरपुर थाना कासगंज जनपद कासगंज

बरामदगी का विवरण -

20010 रू व 52 ताश के पत्ते बरामद



थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 नफर अभि0 मय 02 अदद तमन्चा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा वाछितो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में मुखबिर खास की सूचना पर 2 नफर अभि0

1. मनोज त्यागी पुत्र श्री बालेश्वर त्यागी
2. मोहित त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी नि0गण – गढी केसरी थाना गन्नौर जिला सोनीपत हाल पता जितेन्द्र त्यागी का किराये का मकान कस्बा व थाना मुरादनगर को क्रमशः 1-1 अवैध तमन्चा 315 बोर व 1-1 जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार किया गया

पूछताछ का विवरण-

आज दिनांक 26/10/20को समय 09.05 बजे उ0नि0 बृजकिशोर गौतम मय हमराह का0 2156 संजय सिंह व पी0आर0डी 24 बलजीत सिंह के देखरेख शान्ति व्यवस्था गस्त चैकिंग सदिग्ध वाहन/व्यक्ति व गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त अन्दर इलाका थाना मे मामुर थेk जव गस्त करते हुये हमर्दद चौराहा के पास लोहियानगर पहुँचे तो कि मुखबिर की सूचना पर 1. मनोज त्यागी 2 मोहित त्यागी उपरोक्त की जामा तलाशी ली तो दोनो से एक-एक अदद तमन्चा व एक-एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए A

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. मनोज त्यागी पुत्र श्री बालेश्वर त्यागी
2. मोहित त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी नि0गण – गढी केसरी थाना गन्नौर जिला सोनीपत हाल पता जितेन्द्र त्यागी का किराये का मकान कस्बा व थाना मुरादनगर

अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 1703/20 धारा 3/25 A ACT
2. मु0अ0सं0 1704/20 धारा 3/25 A ACT

बरामदगी का विवरण:-

1. दो सीएमपी 315 बोर मय दो कारतूस जिन्दा 315 वोर

